

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 जनवरी 2018—माघ 6, शक 1939

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद् के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

पंचम् तल, "मेट्रो प्लाजा", बिट्टन मार्केट, भोपाल—462 016

भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2018

क्रमांक:71/म.प्र.वि.नि.आ./2018 - विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 91(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी सेवा भर्ती तथा सेवा

की शर्तों) विनियम 2012 में प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के वेतन तथा भत्तों संबंधी प्रावधानों में निम्न संशोधन करता है, अर्थात् :-

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

(प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी सेवा भर्ती तथा सेवा की शर्तों) विनियम, 2012 में प्रथम संशोधन

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ:

(1) ये विनियम मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी सेवा भर्ती तथा सेवा की शर्तों) विनियम 2012 (प्रथम संशोधन, वर्ष 2018) कहलायेंगे।

(2) ये विनियम दिनांक 01.01.2016 से प्रभावशील होंगे।

2. प्रमुख विनियम के विनियम 5(1) की अनुसूची - 1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात्;

अनुसूची - एक

(विनियम 5 देखिए)

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	अस्थाई पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतन रेंज
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1.	आयोग सचिव	01	प्रथम श्रेणी	141800-214700/-
2.	संचालक	03	प्रथम श्रेणी	141800-214700/-
3.	संयुक्त संचालक	04	प्रथम श्रेणी	123100-215900/-
4.	संयुक्त संचालक (प्रशासन)	01	प्रथम श्रेणी	123100-215900/-
5.	उप-संचालक	07	प्रथम श्रेणी	67300-206900/-
6.	उप-संचालक (प्रशासन)	01	प्रथम श्रेणी	67300-206900/-
7.	उप-संचालक (सूचना प्रौद्योगिकी)	01	प्रथम श्रेणी	67300-206900/-
8.	सहायक संचालक (सूचना प्रौद्योगिकी)	02	द्वितीय श्रेणी	56100-177500/-
9.	लेखाधिकारी	01	द्वितीय श्रेणी	56100-177500/-
10.	कार्मिक अधिकारी	01	द्वितीय श्रेणी	56100-177500/-
11.	निज सचिव	03	द्वितीय श्रेणी	42700-135100/-

- टीप :-
1. वार्षिक वेतनवृद्धि संलग्न मैट्रिक्स के अनुसार होगी ।
 2. मंहगाई भत्ते का भुगतान म0प्र0 शासन द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना के अनुसार होगा ।
 3. बकाया राशि का भुगतान एवं अन्य नियम एवं शर्तें राज्य शासन के द्वारा जारी "मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017" एवं तत्पश्चात समय-समय पर जारी संशोधन के अनुसार होंगे ।

आयोग के आदेशानुसार,
शैलेन्द्र सक्सेना, आयोग सचिव.

Bhopal, the 16th January 2018

No.71/MPERC/2018- In exercise of the power conferred by section 91(3) of the Electricity Act, 2003 and in accordance with the approval granted by Government of Madhya Pradesh, the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendments to Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Class I & II Service Recruitment and Condition of Service) Regulations, 2012, in terms of Salaries & Allowances of Class I & II employees, namely:-

First Amendment/Addendum to Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Class I and Class II Service Recruitment and Condition of Service) Regulations, 2012

1. Short Title and Commencement-
 - (1) These Regulations shall be called the "Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Class I and Class II Service Recruitment and Condition of Service) Regulations, 2012 (First Amendment of 2018)".
 - (2) These Regulations shall be effective from 1st January, 2016.
2. In the Principal Regulation Schedule -1 of Regulation 5(1) shall be substituted by the following –

SCHEDULE - I

(See Regulation - 5)

S.No.	Name of Posts included in the service	Total Number of Temporary Posts	Classification	Pay range
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1.	Commission Secretary	01	I	141800-214700 / -
2.	Director	03	I	141800-214700 / -
3.	Joint Director	04	I	123100-215900 / -
4.	Joint Director (Administration)	01	I	123100-215900 / -

5.	Deputy Director	07	I	67300-206900/-
6.	Deputy Director (Administration)	01	I	67300-206900/-
7.	Deputy Director (Information Technology)	01	I	67300-206900/-
8.	Assistant Director (Information Technology)	02	II	56100-177500/-
9.	Accounts Officer	01	II	56100-177500/-
10.	Personnel Officer	01	II	56100-177500/-
11.	Private Secretary	03	II	42700-135100/-

- Note: (1) The yearly increments shall be applicable as per the enclosed Matrix.
 (2) Dearness allowance shall be applicable as notified by Government of MP from time to time.
 (3) Payment of arrear and other terms and conditions shall be applicable as per State Government's orders namely "मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017" as amended from time to time.

By order of the Commission,

SHAIENDRA SAXENA, Commission Secretary.

भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2018

क्रमांक:71/म.प्र.वि.नि.आ./2018 - विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 91(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती तथा सेवा की शर्तें) विनियम 2012 में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों संबंधी प्रावधानों में निम्न संशोधन करता है, अर्थात् :-

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

(तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती तथा सेवा की शर्तें) विनियम, 2012 में प्रथम संशोधन

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ:

- (1) ये विनियम मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती तथा सेवा की शर्तें) विनियम 2012 (प्रथम संशोधन, वर्ष 2018)" कहलायेंगे ।
- (2) ये विनियम दिनांक 01.01.2016 से प्रभावशील होंगे ।

2. प्रमुख विनियम के विनियम 5(1) की अनुसूची - 1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात्;

अनुसूची - एक
(विनियम 5 देखिए)

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	अस्थाई पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतन रेंज
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1.	निज सहायक	05	तृतीय श्रेणी	36200-114800 /-
2.	शीघ्रलेखक	05	तृतीय श्रेणी	28700-91300 /-
3.	कैशियर/केयर टेकर	02	तृतीय श्रेणी	25300-80500 /-
4.	कम्प्यूटर आपरेटर-सह-स्टेनो	10	तृतीय श्रेणी	19500-62000 /-
5.	स्वागती/डायरी लेखक-सह-प्रेषक	02	तृतीय श्रेणी	19500-62000 /-
6.	वाहन चालक	08	तृतीय श्रेणी	19500-62000 /-
7.	पर्यवेक्षक (सुपर वाइजर)	03	चतुर्थ श्रेणी	18000-56900 /-
8.	दफ्तरी	06	चतुर्थ श्रेणी	16100-50900 /-
9.	भृत्य/अर्दली	16	चतुर्थ श्रेणी	15500-49000 /-

- टीप :-
1. वार्षिक वेतनवृद्धि संलग्न मैट्रिक्स के अनुसार होगी ।
 2. मंहगाई भत्ते का भुगतान म0प्र0 शासन द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना के अनुसार होगा ।
 3. बकाया राशि का भुगतान एवं अन्य नियम एवं शर्तें राज्य शासन के द्वारा जारी "मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017" एवं तत्पश्चात समय-समय पर जारी संशोधन के अनुसार होंगे ।

आयोग के आदेशानुसार,
शैलेन्द्र सक्सेना, आयोग सचिव.

Bhopal, the 16th January 2018

No.71/MPERC/2018- In exercise of the power conferred by section 91(3) of the Electricity Act, 2003 and in accordance with the approval granted by Government of Madhya Pradesh, the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendments to Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Class III & IV Service Recruitment and Condition of Service) Regulations, 2012, in terms of Salaries & Allowances of Class III & IV employees, namely:-

**First Amendment/Addendum to Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission
(Class III and Class IV Service Recruitment and Condition of Service)
Regulations, 2012**

1. Short Title and Commencement-

(i) These Regulations shall be called the "Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Class III and Class IV Service Recruitment and Condition of Service) Regulations, 2012 (First Amendment of 2018)".

(ii) These Regulations shall be effective from 1st January, 2016.

2. In the Principal Regulation Schedule -1 of Regulation 5(1) shall be substituted by the following –

SCHEDULE - I

(See Regulation - 5)

S.No.	Name of Posts included in the service	Total Number of Temporary Posts	Classification	Pay range
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1.	Personal Assistant	05	III	36200-114800 / -
2.	Stenographer	05	III	28700-91300 / -
3.	Cashier/Caretaker	02	III	25300-80500 / -
4.	Computer-Operator-Cum-Steno	10	III	19500-62000 / -
5.	Receptionist/Diarist-cum-Dispatcher	02	III	19500-62000 / -

6.	Driver	08	III	19500-62000 / -
7.	Supervisor	03	IV	18000-56900 / -
8.	Daftari	06	IV	16100-50900 / -
9.	Peon/Ardali	16	IV	15500-49000 / -

- Note: (1) The yearly increments shall be applicable as per the enclosed Matrix.
(2) Dearness allowance shall be applicable as notified by Government of MP from time to time.
(3) Payment of arrear and other terms and conditions shall be applicable as per State Government's orders namely "मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017" as amended from time to time.

By order of the Commission,
SHAILENDRA SAXENA, Commission Secretary.

PAY MATRIX MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

Pay Band	4440-7440				5200-20200				9300-34800				15600-39100				37400-67000	
	1300	1400	1800	1900	2100	2400	2800	3200	3600	4200	4800	5400	6600	7600	8700	8900	10000	
Grade Pay																		
Entry Pay(EP)	6050	6260	7000	7580	8610	9840	11170	12500	13830	16290	18750	21000	25200	29920	46100	48590	52120	
Index	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.62	2.62	2.62	2.62	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.72	
1	15500	16100	18000	19500	22100	25300	28700	32800	36200	42700	49100	56100	67200	79900	123100	129700	141800	
2	16000	16600	18500	20100	22800	26100	29600	33800	37300	44000	50600	57800	69300	82300	126800	133600	146100	
3	16500	17100	19100	20700	23500	26900	30500	34800	38400	45300	52100	59500	71400	84800	130600	137600	150500	
4	17000	17600	19700	21300	24200	27700	31400	35800	39600	46700	53700	61300	73500	87300	134500	141700	155000	
5	17500	18100	20300	21900	24900	28500	32300	36900	40800	48100	55300	63100	75700	89900	138500	146000	159700	
6	18000	18600	20900	22600	25600	29400	33300	38000	42000	49500	57000	65000	78000	92600	142700	150400	164500	
7	18500	19200	21500	23300	26400	30300	34300	39100	43300	51000	58700	67000	80300	95400	147000	154900	169400	
8	19100	19800	22100	24000	27200	31200	35300	40300	44600	52500	60500	69000	82700	98300	151400	159500	174500	
9	19700	20400	22800	24700	28000	32100	36400	41500	45900	54100	62300	71100	85200	101200	155900	164300	179700	
10	20300	21000	23500	25400	28800	33100	37500	42700	47300	55700	64200	73200	87800	104200	160600	169200	185100	
11	20900	21600	24200	26200	29700	34100	38600	44000	48700	57400	66100	75400	90400	107300	165400	174000	190700	
12	21500	22200	24900	27000	30600	35100	39800	45300	50200	59100	68100	77700	93100	110500	170400	179500	196400	
13	22100	22900	25600	27800	31500	36200	41000	46700	51700	60900	70100	80000	95900	113800	175500	184900	202300	
14	22800	23600	26400	28600	32400	37300	42200	48100	53300	62700	72200	82400	98800	117200	180800	190400	208400	
15	23500	24300	27200	29500	33400	38400	43500	49500	54900	64600	74400	84900	101800	120700	182000	191800	210200	
16	24200	25000	28000	30400	34400	39600	44800	51000	56500	66500	76600	87400	104900	124300	191800	200600	219300	
17	24900	25800	28800	31300	35400	40800	46100	52500	58200	68500	78900	90000	108000	128000	203500	213000	232000	
18	25600	26600	29700	32200	36500	42000	47500	54100	59900	70600	81300	92700	111200	131800	209600	219000	238000	
19	26400	27400	30600	33200	37600	43300	48900	55700	61700	72700	83700	95500	114500	135800	209600	219000	238000	
20	27200	28200	31500	34200	38700	44600	50400	57400	63600	74900	86200	98400	117900	139900	215900	225000	244000	
21	28000	29000	32400	35200	39900	45900	51900	59100	65500	77100	88800	101400	121400	144100	220000	229000	248000	
22	28800	29900	33400	36300	41100	47300	53500	60900	67500	79400	91500	104400	125000	148400	224000	233000	252000	
23	29700	30800	34400	37400	42300	48700	55100	62700	69500	81800	94200	107500	128800	152900	228000	237000	256000	
24	30600	31700	35400	38500	43600	50200	56800	64600	71600	84300	97000	110700	132700	157500	232000	241000	260000	
25	31500	32700	36500	39700	44900	51700	58500	66500	73700	86800	99900	114000	136700	162200	236000	245000	264000	
26	32400	33700	37600	40900	46200	53300	60300	68500	75900	89400	102900	117400	140800	167100	240000	249000	268000	
27	33400	34700	38700	42100	47600	54900	62100	70600	78200	92100	106000	120900	145000	172100	244000	253000	272000	
28	34400	35700	39900	43400	49000	56500	64000	72700	80500	94900	109200	124500	149400	177300	248000	257000	276000	
29	35400	36800	41100	44700	50500	58200	65900	74900	82900	97700	112500	128200	153900	182600	252000	261000	280000	
30	36500	37900	42300	46000	52000	59900	67900	77100	85400	100600	115900	132000	158500	188100	256000	265000	284000	
31	37600	39000	43600	47400	53600	61700	69900	79400	88000	103600	119400	136000	163300	193700	260000	269000	288000	
32	38700	40200	44900	48800	55200	63600	72000	81800	90600	106700	123000	140100	168200	199500	264000	273000	292000	
33	39900	41400	46200	50300	56900	65500	74200	84300	93300	109900	126700	144300	173200	205500	268000	277000	296000	
34	41100	42600	47600	51800	58600	67500	76400	86800	96100	113200	130500	148600	178400	211700	272000	281000	300000	
35	42300	43900	49000	53400	60400	69500	78700	89400	99000	116600	134400	153100	183800	217000	276000	285000	304000	
36	43600	45200	50500	55000	62200	71600	81100	92100	102000	120000	138400	157700	189300	222000	280000	289000	308000	
37	44900	46600	52000	56700	64100	73700	83500	94900	105100	123700	142600	162400	195000	228000	284000	293000	312000	
38	46200	48000	53600	58400	66000	75800	85800	97700	108300	127400	146900	167300	200900	234000	292000	301000	320000	
39	47600	49400	55200	60200	68000	78000	88600	100600	111500	131200	151500	172300	206900	240000	300000	309000	328000	
40	49000	50900	56900	62000	70000	80500	91300	103600	114800	135100	155800	177500	213000	246000	306000	315000	334000	

N
 JOINT DIRECTOR (ADMIN)
 MPERC BHOPAL

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2018

अधिसूचना क्रमांक-भ.स.क.म.म.-2018-680.—मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 278 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से, 19 मई 2017 द्वारा “प्रसूति सहायता योजना 2004” में संशोधन जारी किया गया था. उक्त संशोधन में एतद्वारा निम्नानुसार परिवर्धन किया जाता है:—

अर्थात्:—

(1) योजना की कंडिका 4.1, 4.2 के स्थान पर निम्नानुसार उप कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:—

(4) हितलाभ :

4.1 वैध परिचयपत्र धारी महिला निर्माण श्रमिक अथवा वैध परिचय पत्र धारी पुरुष निर्माण श्रमिक की पत्नी को संस्थागत प्रसूति पर प्रसूति सहायता के रूप में 60 दिन की अवधि का अकुशल श्रमिक हेतु निर्धारित वेतन प्रसूति हितलाभ के रूप में देय होगा.

4.2 वैध परिचयपत्र धारी महिला निर्माण श्रमिक अथवा वैध परिचय पत्र धारी पुरुष निर्माण श्रमिक की पत्नी को संस्थागत प्रसूति पर प्रसूति सहायता के अतिरिक्त पोषण भत्ता रुपये 01 हजार शहरी क्षेत्र हेतु एवं रुपये 1400 ग्रामीण क्षेत्र हेतु देय होगा.

एल. पी. पाठक, सचिव.